



# ज्ञानोदय गुरुकुल

गोला रोड दानापुर पटना ८०१५०३

## अर्धवार्षिक परीक्षा – (2019-20)

वर्ग - 7

पूर्णांक : - 80

विषय: - हिंदी

समय: - ३ घंटा

### सामान्य निर्देश:-

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में ही लिखें ।
- प्रश्न पत्र में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए ।

आशा मानव-जीवन का संचय-सूत्र है।आशा के सहारे ही मनुष्य वीरतापूर्ण काम कर गुजरता है।आशा मानव को काम करने की प्रेरणा देती है।आशा को 'बलवान राजा' कहा गया है क्योंकि आशा के बलबूते पर व्यक्ति राजा की तरह राज करता है।आशावान आदमी अकर्मण्य नहीं हो सकता।वह कठिन से कठिन स्थिति में भी प्रयत्नशील रहता है।

1. उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें-

(5×1=5)

क) मानव-जीवन का संचय-सूत्र क्या है?

ख) आशा मानव को क्या प्रेरणा देती है?

ग) आशा को बलवान राजा क्यों कहा गया है?

घ) कौन सा व्यक्ति अकर्मण्य नहीं हो सकता?

ङ) इस गद्यांश का शीर्षक लिखें।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे-

(4×5=20)

क) पेड़ किस प्रकार जीवनदायी है, वर्णन करें।

ख) हमारे पुरखों ने किस संगम को सबसे अधिक पसंद किया और उसका क्या नाम रख?

ग) मुंशी जी किसी घटना की जानकारी को विस्तार कैसे देते थे?

घ) पद्मनाभस्वामी मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें।

ङ) खेतड़ी के महाराज कौन थे? उन्होंने 'विवेकानंद' नाम की सार्थकता के लिए क्या कहा था?

3. उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरे- (1×5=5)

(द्वैत, पैदल, चिंतन, भक्ति, प्रेजीडेंसी, महानतम)

क) भीड़िया द्वारा स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म-संसद का ----- व्यक्तित्व करार दिया था ।

ख) सन् 1879 में नरेन्द्रनाथ दत्त ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता के ----- कोलेज में प्रवेश लिया।

ग) स्वामी रामकृष्ण अपने शिष्यों को ----- और ----- की शिक्षा दिया करते थे।

घ) भारतभूमि को अपनी दृष्टि से देखने के लिए स्वामी विवेकानंद ने ----- भारत-भ्रमण करने का निश्चय किया।

ङ) कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानन्द ने तीन दिनों तक गहन ध्यान और गंभीर ----- किया

4. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें-(1×5=5)

शिकस्त , वारदात , सम्मोहन , गोपुरम , दुर्गम

5. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें- (1×5=5)

क) ----- भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। (व्याकरण / बोली)

ख) कुमाऊँनी एक ----- है। (भाषा / बोली)

ग) संस्कृत भाषा की लिपि ----- है । (हिन्दी / देवनागरी)

घ) किसी भाषा के क्षेत्रीय रूप को ----- कहते हैं । (बोली / उपभाषा)

ङ) हिन्दी अब ----- भाषा बन गई है । (राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय)

6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।- (3×5=15)

क) वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं?

ख) संधि किसे कहते हैं? उनके भेदों के नाम लिखें।

ग) तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करें।

घ) उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें।

इ) निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थान पर उपयुक्त विराम चिह्न लगाएँ:-

क. तुम क्या चाहते हो

ख. अरे सोहन तुम यहाँ

ग. दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई भारत के प्रमुख शहर हैं

7. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें ।

(3×5=15)

क) अंग अंग ढीला होना ----

ख) अंगूठा दिखाना ----

ग) ओखली में सिर देना -----

घ) खाक छानना ----

इ) चकमा देना ----

8. अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग करे ।

(1×5 = 5)

9. किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे ।

(1×5=5)

क ) व्यायाम का महत्व या

ख) मेरी प्रथम रेल यात्रा

-----X-----